

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

करनकरावनहार करा रहा है



**हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा
पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के
अधिकारी भव**



**हमे पुरुषार्थ में कभी भी
थकना नहीं है।**



रावण की जायदाद को छोड़ बाप की जायदाद सम्भालो

बापदादा- 03.04.1997

ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहनशक्ति? कौन सा है? सहनशक्ति, शान्ति की शक्ति यह है ना! तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट-कूट कर अन्दर डाल दिया है जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अन्दर कूट-कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है? यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया। पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज़ को सम्भाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है! रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना? लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं - बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है? तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुनकरके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है - कि दिल से अगर एक बार भी 'मेरा बाबा' बोल दिया, फिर भले बीच-बीच में भूल जाते हो लेकिन एक बार भी दिल से बोला 'मेरा बाबा', तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो मेरे ही हो। ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बराती बनकर नहीं चलना, सज़नी बनकर चलना।



पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा-स्तुति,
मान-अपमान होता है, उसमें स्थिति
समान रहे, उसे एक खेल समझो तो
कभी थकावट नहीं आयेगी।



श्रेष्ठ प्रेरणा



बहाने हमें प्रयासों से
आसानी से बचाते हैं... किन्तु
वे हमें अक्सर उपलब्धियों से
दूर तथा असफलताओं के
करीब ले जाते हैं...।



Download App - Learn Rajyoga Meditation





“लोगों से बात करके मन हल्का हो जाता है...”

हमारी problem सुनकर, अगर उन्हें –
चिंता, निराशा, डर या दुःख हुआ,
उन्होंने हमारी या दूसरों की निंदा की, तो
उनकी vibrations हमें भारी कर देंगी।

बात उनसे करें जो हर problem में
स्थिर रहें, सही सोचें, सबका नज़रिया समझें।
हमें सिर्फ समाधान नहीं, शक्ति भी मिले।



You are a graceful soul who sees others through the lens of your inner beauty and notices the beauty of their soul.



BRAHMA KUMARIS
SpARC Wing





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org